



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1983/माघ 30, 1904  
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1983/MAGHA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1983

आ.अं. 23(अ)---राज्य सभा के लिए हरियाणा से निर्वाचित सदस्य श्री सुजान सिंह की उनकी पदावधि के अवनति में पूर्व त्यागपत्र दे देने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार 11 मार्च, 1983 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(1)]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, 19th February, 1983

O. N. 22 (E)—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Sujjan Singh a member elected to the Council of States from Haryana, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 11th March, 1983.

[No. 100/CS-HN/1/83 (1)]

आ.अं. 23(अ) ---लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(1) तारीख 19 फरवरी, 1983 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 26-2-83 (शनिवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 28-2-83 (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 2-3-83 (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ, 9-3-83 (बुधवार) तो मतदान होगा, तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 11-3-83 (शुक्रवार) कर दिया जाएगा।

[सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(2)]

O. N. 23 (E):—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/83(1), dated the 19th Feb. 1983.

- (a) 26-2-83 (Saturday) as the last date for making nominations;
- (b) 28-2-83 (Monday) as the date for scrutiny of nominations;
- (c) 2-3-83 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures.

- (d) 9-3-83 (Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 11-3-83 (Friday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-HN/1/83 (2)]

आ.अ. 24 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 19 फरवरी, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(3)]

O. N. 24 (E):—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/83(1), dated the 19th February, 1983.

[No. 100/CS-HN/1/83 (3)]

आ.अ. 25 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग हरियाणा सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(1), तारीख 19 फरवरी, 1983 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए श्री राज कृष्ण, सचिव, हरियाणा विधान सभा सचिवालय को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(4)]

O. N. 25 (E):—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Haryana, hereby designates Sh. Raj Krishan, Secretary, Haryana Vidhan Sabha Secretariat, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/83(1), dated 19th February, 1983.

[No. 100/CS-HN/1/83 (4)]

आ.अ. 26 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 19 फरवरी, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उनके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री एम.एस. संधी, अवर सचिव, हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़ को नियुक्त करता है।

[सं. 100/रा.सं.-हरि०/1/83(5)]

आदेश से,

आर.पी. भल्ला, सचिव

O. N. 26 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri S.S. Sanghi, Under Secretary, Haryana, Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/83 (1) dated the 19th February, 1983 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-HN/1/83(5)]

By Order,

R.P. BHALLA, Secy.